

## प्रेस नोट

### संघ प्रदेश दमण-दीव के मुक्ति दिवस से दीव में आयोजित हो रहा है दीव फेस्टीवल,2013

दीव, दिनांक 19/12/2013 - संघ प्रदेश दमण एवं दीव के 53 वें मुक्ति दिवस का आयोजन 19 दिसम्बर,2013 को किया जा रहा है । इस अवसर पर संघ प्रदेश की मुक्ति के उपरान्त यहाँ हुए विकास एवं विकास रथ को आगे बढ़ाने के लिए किये जाने वाले प्रयास के विवरण से दमण एवं दीव की जनता को अवगत कराया जाएगा । सुबह 07:30 से 08:00 बजे तक विद्यार्थियों एवं एन.सी.सी. कैडेट द्वारा दीव शहर में प्रभात फेरी होगी, पूर्वाह्न 08:15 बजे समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव द्वारा नगरपालिका गार्डन, दीव में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी एवं पूर्वाह्न 9:00 बजे दीव समाहर्ता एवं जिलाधीश श्री विनोद पी. कावले, भा.प्र.से. द्वारा पद्मभूषण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झण्डा फहराया जाएगा । साथ ही 19 से 22 दिसम्बर, 2013 तक दीव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है । हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीव महोत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं की झलक दीव वासियों व पर्यटकों को देखने को मिलेगी ।

19 दिसम्बर, 2013 को पूर्वाह्न 10:00 बजे " दीव महोत्सव " का शुभारम्भ किया जाएगा एवं 11:15 से 01:00 बजे तक पद्मभूषण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दीव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा एवं 11:00 से 12:30 बजे के भीतर महिलाओं के लिए मेहनदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा । अपराह्न 04:00 से 06:00 बजे तक बन्दरचौक पर सलाद प्रतियोगिता का आयोजन होगा तथा सायं 07:10 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पश्चिमांचल सांस्कृतिक समिति एवं स्थानीय ग्रुप द्वारा लोक नृत्य प्रदर्शन किया जाएगा । रात को 09:00 बजे मेगा इवेण्ट के अन्तर्गत पद्मभूषण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नकाश अजीज, सुमेश शिन्दे, फिल्म संगीतकार सुप्रिया पाठक, दूरदर्शन फेम एंकर दीपा बक्शी की जादूगरी कला देखने को मिलेगी ।

दीव महोत्सव के कार्यक्रम को जारी रखते हुए 20 दिसम्बर को पूर्वाह्न 07:00 से 09:00 बजे के दौरान महिलाओं एवं पुरुषों के लिए घोघला चैक पोस्ट से दीव, वणाकबारा, नागवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दीव तक साईकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा । पूर्वाह्न 09:00 बजे से 11:00 बजे के दौरान " प्रकृति की सुरक्षा " विषय पर पोस्टर

प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा । 20 दिसम्बर,2013 को अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत चिकित्सा शिविर, बालूका से सृजनकला प्रतियोगिता, वृद्ध व्यक्तियों के लिए खेल प्रतियोगिता, आशु कविता लेखन, सांस्कृतिक कार्यक्रम व मेगा इवेण्ट आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे ।

21 दिसम्बर, 2013 को पूर्वाह्न 7:00 से 8:00 बजे तक पुरुषों के लिए क्रॉस कण्ट्री रेस, 8:00 से 9:00 बजे तक महिलाओं के लिए क्रॉस कण्ट्री रेस, 9:00 से 10:30 बजे तक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन होगा । 9:00 बजे से 10 बजे तक 05 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए तिपहिया साईकिल रेस, 10:00 बजे से 10:30 बजे तक महिलाओं के लिए पॉट रेस का आयोजन किया जाएगा । 10:30 से 11:00 बजे तक लाईम स्पून प्रतियोगिता रखी गई है । उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे पुरुषों के लिए तैराकी प्रतियोगिता, 04:00 बजे से डोंगी चालन प्रतियोगिता एवं बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा । शाम को 07:00 बजे सभी प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरण किये जाएंगे एवं 07:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम व रात को 09:00 बजे से मेगा इवेण्ट का आयोजन किया जाएगा ।

महोत्सव की अंतिम कड़ी के रूप में दिनांक 22/12/2013 रविवार को दीव फूड फेस्टीवल एवं आलाप म्यूजिकल ग्रुप, दीव के स्थानीय प्रतिभावान कलाकारों द्वारा आर्केस्ट्रा का आयोजन किया जाएगा ।

माननीय समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव ने दीव वासियों एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे जोश एवं उमंग के साथ इन कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं में बढ़चढ़ कर भाग लें एवं दीव फेस्टीवल के महती उद्देश को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें ।

\*\*\*\*\*